



प्रदर्शनियों में कैसे भाग लें

प्रतिभागी यूनिट के लिए क्रमशः दिशानिर्देश

1. किसी भी रुचि रखने वाले प्रदर्शनकारी के लिए एनएसआईसी का फील्ड कार्यालय पहला स्थल है, जिससे संपर्क किया जाना है। लॉगिन करने के लिए: <https://nsic.co.in/Corporate/Search/Branch>
2. भाग लेने वाली यूनिट को कम से कम 60 दिन पूर्व एनएसआईसी के निकटतम कार्यालय से संपर्क करना होगा और अपेक्षित दस्तावेजों सहित भाग लेने संबंधी अपना आवेदन पत्र उसे प्रस्तुत करना होगा।
3. आवेदक यूनिट द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज:
 - i) एमएसएमई डेटाबैंक के नामांकन की संख्या
 - ii) उद्यम रजिस्ट्रेशन
 - iii) आवेदन पत्र
 - iv) पैन कार्ड (एमएसएमई डेटा बैंक पर पंजीकरण के समय प्रयुक्त पैन कार्ड)
 - v) (क) बैंक खाते के वितरण-बैंक का नाम, चालू खाता, बचत खाता
(ख) खाली चेक
 - vi) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम
 - vii) जीएसटी संख्या (वैकल्पिक)
 - viii) स्टॉल में इच्छित प्रदर्शन
 - ix) यूनिट का वचन पत्र और एनएसआईसी की शर्तों की स्वीकृति
 - x) चालू वित्त वर्ष के दौरान घरेलू प्रदर्शनियों में आवेदक यूनिट द्वारा कितनी बार भाग लिया गया है (कृपया स्कीम का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें) मेले/प्रदर्शनी का नाम, मेला/प्रदर्शनी का स्थान, अवधि और आयोजक के विवरण, किस स्कीम के अधीन प्रतिभागिता चाहते हैं, जैसे कि- एसमास आदि।
4. आयोजक (प्राइवेट/संघ/चैम्बर आदि) द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज:
 - i) कंपनी पंजीयक से निगमन का प्रमाण पत्र और संख्या ज्ञापन/पंजीकरण संबंधी दस्तावेजों सहित।
 - ii) पिछले तीन वर्षों का लेखापरीक्षित तुलन-पत्र।
 - iii) जीएसटीएन प्रमाणपत्र
 - iv) बैंक द्वारा जारी किया गया अनिवार्य फार्म/पीएफएमएस के विवरण।
 - v) वाणिज्य मंत्रालय/टीपीओ/ईईपीसी/एफआईईओ/ निर्यात संवर्धन परिषद या किसी केन्द्रीय/राज्य सरकारी निकाय द्वारा जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र।

- vi) आयोजक लागत शीट के साथ पिछले तीन वर्षों की कीमत सहित प्रस्तुत करें। छूट यदि कोई अपेक्षित हो, इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए कि एनएसआईसी लिमिटेड सहित सभी के लिए कीमत सामान है, जिसे सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत् साक्ष्यांकित किया गया हो।
- vii) प्रोफार्मा बीजक, मेला प्रदर्शनी की विवरणिका और आयोजक का पत्र, जिसमें दर और स्टॉल के न्यूनतम आकार का उल्लेख हो।
5. यूनिट को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रदर्शनी में उनकी भागीदारी एनएसआईसी के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में अपना आवेदन जमा करते समय सभी नियमों और शर्तों का पालन इसी तरह से किया गया है।
6. प्राप्त सभी आवेदनों का अनुपालन किया जाता है और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन को प्रस्तुत किया जाता है।
7. संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय जहां यूनिट ने आवेदन किया, के द्वारा अनुमोदन सूचित करने के पश्चात वह यूनिट प्रदर्शनी में भाग ले सकेगी।
8. प्रत्येक प्रदर्शनी के संबंध में जैसे कि मेले की उत्पाद प्रोफाइल, भाग लेने वाली इकाई की प्रोफाइल, प्रदर्शनी का स्थान, स्टॉल का किराया, मेला आयोजकों की साख, पिछले अनुभव आदि का अवलोकन हमारे एनएसआईसी कार्यालयों (शाखा और जोनल) दोनों स्तरों पर किए जाएंगे।
9. एनएसआईसी फील्ड कार्यालय एनएसआईसी प्रदर्शनी पोर्टल में आवेदन दर्ज करेगा उसके बाद यूनिट को एक पावती पत्र जारी करेगा।
10. इच्छुक आयोजक/इकाई पोर्टल को देखें: <https://mas.nsicnet.in>

26.07.2022